

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 435]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 अगस्त 2024 — श्रावण 25, शक 1946

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
निर्वाचन भवन, सेक्टर-19, नॉर्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 16 अगस्त 2024

संशोधित आदेश

क्रमांक एफ-46-3/तीन(एक)/न.पा./प्र.मु./2019/1328.— छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14(1), छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 5(2) के अपेक्षानुसार आयोग एतद्वारा पूर्व में निर्धारित प्ररूप क एवं ख की कण्डिका (अ) में उल्लेखित शब्द और चिन्ह “(यदि जारी किया गया है)” तथा प्ररूप ग के आक्षेपकर्ता की विशिष्टियां एवं आक्षेपित व्यक्ति की प्रविष्टि की कण्डिका (ड) में उल्लेखित शब्द और चिन्ह “(यदि जारी की गई हो)” को विलोपित किया जाता है।

(माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

हस्ता./—

(सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे)
सचिव.